FINANCIAL EXPRESS

IndoStar Capital Finance Limited

Registered Office - Unit No. 505.5" Floor, Wing 2/E. Corporate Avenue Andheri- Ghatkopar Link Road, Chakala NA, Mumbai- 400099, Maharashtra Website: https://www.indostarcapital.com/

STRESSED ASSETS OF INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED

INVITATION FOR COUNTER BIDS FOR SALE OF

IndoStar Capital Finance Limited (ICFL), intends to sell certain stressed assets, the details of which are more particularly set out below and the Public Notice referred to below (Proposed Sale). ICFL now invites counter bids (Counter Bids) from ARCs for the sale of certain stressed assets on its books, as per the extant RBI guidelines (Interested Parties). Eligible Interested Parties may download the detailed public notice document dated 22^{ed} August, 2023 from the website of ICFL https://www.indostarcapital.com/

The Proposed Sale shall be on an 'as is where is, as is what is, whatever there is and without recourse basis' and is being conducted under the Swiss Challenge Method, based on an existing offer received by ICFL (Primary Offer) at the price set out below (Reserve Price/ Base Bid). Please note that the Proposed Sale will be subject to the outcome of the Counter Bid process and final approval by the competent authority of ICFL

Total outstanding as on	Reserve Price/ Base Bid	Terms of	
30° June, 2023	(₹ In Cr.)	Proposed Sale	
₹ 915,30,00,844/- (Rupees Nine Hundred and Fifteen Crores Thirty Lakhs Eight Hundred and Forty Four Only)	₹ 790,00,00,000/- (Rupees Seven Hundred and Ninety Crores Only)	As per the terms and conditions set out under the Public Notice.	



CAPITAL INDIA FINANCE LIMITED Corporate Identity Number (CIN): L74899DL1994PLC128577

Regd. Office: 2nd Floor, DLF Centre, Sansad Marg, New Delhi – 110001, Ph. No.: 011-49546000 Corporate Office: Level - 20, Birla Aurora, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400030 (MH), Ph. No.: 022-45036000 Website: www.capitalindia.com, Email: secretarial@capitalindia.com

INFORMATION REGARDING THE 29™ ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO **CONFERENCING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS**

Dear Members.

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Capital India Finance Limited ("Company") will be held through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") on Thursday, September 21, 2023 at 09:30 A.M. (IST), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the rules made thereunder, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with all the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") for convening general meetings through VC/OAVM and to transact the businesses as set out in the Notice of 29th AGM. The members can attend and participate in the AGM through VC/ OAVM, without their physical presence at a common venue. The members joining the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the guorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the Circulars, electronic copies of the Notice convening the AGM along with explanatory statement pursuant to Section 102 of the Act and Annual Report for the financial year 2022-23, shall be sent within the prescribed timelines by e-mail to all those members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The Notice of the AGM along with Annual Report shall also be available on the website of the Company at www.capitalindia.com, the website of the stock exchange where the equity shares of the Company are listed, i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and website of KFin Technologies Limited. Registrar and Share Transfer Agent of the Company ("RTA"/"KFintech") at https://evoting.kfintech.com/. In terms of applicable regulatory provisions, the Company will be providing Members, the facility to

cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of AGM ("remote e- voting"), to participate in the AGM through VC/OAVM and to electronically cast their votes during the AGM ("e-voting") and for the same, the Company have engaged the services of KFintech. The facility for e-voting will be made available at the AGM to the Members who have not cast their vote(s) by remote e-voting.

The detailed procedure for casting the votes through remote e-voting/e-voting and manner for attending the AGM through VC/OAVM shall be provided in the Notice of the AGM. The details shall also be made available on the website of the Company. Members holding shares in physical mode are hereby notified that pursuant to General Circular No.

SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37, dated March 16, 2023, all the holders of physical shares can update their Bank Account details and register their contact details including the details of e-mail IDs by submitting the requisite form ISR-1 along-with the supporting documents with

Form ISR-1 can be downloaded from the following link: https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/#isc_download_hrd

Members holding shares in dematerialized form are requested to register/update their Bank account details and Contact details including e-mail IDs with their relevant Depository Participant(s).

Members, to receive the dividend directly into their bank account through Electronic Clearing Service (ECS) or any other means, are requested to register/update their complete bank details in the manner In the event the Company is unable to pay the dividend to any Member by electronic mode, due to

non-availability of the details of the bank account, the Company shall dispatch the dividend warrant/ other payment instrument to such shareholder in permissible mode. This Notice is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company in compliance with applicable circulars of MCA and SEBI.

For Capital India Finance Limited

Place: New Delhi Date: August 21, 2023

Rachit Malhotra Chief Compliance Officer & Company Secretary

CIN: L32200MH1994PLC083853 Regd. Off.: 6th Floor, Adhikari Chambers, Oberoi Complex, New Link Road, Andheri (West), Mumbai 400 053 E-mail: sriadhikaribrothers@kanchansobha.com Website: www.adhikaribrothers.com; Tel.: 022 - 4023 0000; Fax: 022 - 2639 5459

SRI ADHIKARI BROTHERS

TELEVISION NETWORK LIMITED

NOTICE OF THE 28™ ANNUAL GENERAL MEETING AND

E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the 28" (Twenty Eighth) Annual General Meeting

("AGM") of the members of Sri Adhikari Brothers Television Network Limited ("the Company") will be held on Thursday, 14" of September, 2023 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio -Visual Means ("OAVM"), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules framed thereunder read with General Circular No. 20/2020 dated May 5. 2020, General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular no. 02/2021 dated January 13, 2021 and General Circular no. 10/2022 dated December 28, 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") read together with relevant circulars issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (collectively referred to as "SEBI Circulars"). In compliance with the said Circulars, electronic copies of Notice and the Annual

Report for the financial year 2022-23 have been sent to all the members whose email IDs are registered as on , Friday, August 11, 2023, with the Company Registrar and Transfer Agents ('RTA') or with the Depository Participant(s). The copy of the same is also available on the website of the Company viz. www.adhikaribrothers.com and on website of NSDL www.evoting.nsdl.com. The dispatch of Notice of the AGM through emails has been completed on Tuesday, August 22, 2023.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the register of members and share transfer books of the Company will remain closed from Saturday, September 09, 2023 to Wednesday, September 13, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 28th AGM

Remote e-voting and e-voting during AGM:

The members holding share either in physical form or in dematerialized form as on Thursday, September 07, 2023 i.e. the cut-off date, may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system of NSDL ('remote e-voting'). Any person, who is a Member of the Company as on the cut-off date only, is eligible to cast his / her vote on all the resolutions set forth in the Notice of AGM.

All the members are hereby informed that:-

- 1. The business as set forth in the Notice of AGM may be transacted through remote e-voting or e-voting system at the AGM; 2. The cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting
- or e-voting system at the AGM shall be Thursday, September 07, 2023; 3. Persons, whose name is recorded in the Register of Members or in the
- Register of Beneficial Owners maintained as on cut-off date, only shall be entitled to avail the facility of E-voting as well as e-voting system at the AGM; 4. The remote e-voting shall commence from Sunday, September 10, 2023 (9:00 am IST) and ends on Wednesday, September 13, 2023 (5:00 pm IST);
- 5. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL (5:00 pm IST) on Wednesday, September 13, 2023: 6. Any person, who acquires shares and becomes a member of the Company
- after the dispatch of the notice and hold shares as on cut-off date i.e. Thursday, September 07, 2023, may obtain login ID and password by sending a request on evoting@nsdl.co.in, to cast their vote electronically. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then the existing User ID and password can be used for casting their vote;
- also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

Mr. Prakash Shenov, Company Secretary (Membership No. FCS 12625), Partner at SAP Corporate Consultants LLP, have been appointed as the Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting process and e-voting facility at the AGM in a fair and transparent manner. The results declared along with the Scrutinizer's Report within the prescribed period shall be displayed on the Company's website and also

For detailed instructions of remote e-voting and e-voting facility at AGM, Members may refer to the Section 'E-voting Process' in the Notice of 28th AGM. In case of queries or grievances pertaining to e-voting procedure, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com or write and email to evoting@nsdl.co.in/ amitv@nsdl.co.in or contact on 022-24994560 and toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 224430 Members may also write to the Company Secretary & Compliance Officer of the Company at investorservices@adhikaribrothers.com

Vijendra Kumar Jain Reg. No. IBBI/IPA-001/IP-P00721/2017-2018/11253 AFA valid up to 26/03/2024 MAX HEIGHTS INFRASTRUCTURE LIMITED Regd. Off: SD-65, Pitampura,

New Delhi-110034 CIN: L67120DL1981PLC179487, Tel: 011-2731 4646 E-mail: cs@maxheights.com, Website: www.maxheights.com Information Regarding 42nd Annual General Meeting to be held through Video Conferencing/Other

Audio-Visual Means

Notice is hereby given that the Forty

Second (42nd) Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Maxheight Infrastructure Limited will be convened or Friday, the 15th day of September, 2023 at 12:00 Noon through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OVAM) facility to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the 42nd AGM, in compliance with the applicable provisions of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements Regulations, 2015 and Companies Act 2013 and Rules framed thereunder read with General circular 10/2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA dated December 28, 2022 and SEB Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/CIR. 2023/4 dated January 05, 2023, for conducting AGM without the physica presence of Members at a common venue The Notice of AGM along with the Annua Report will be sent in due course through electronic mode only to the members of the Company whose mail id registered with the Depository Participant/ Registrar & Transfer Agent (RTA). For Members who have not registered their email addresses we urge them to support our commitmento environmental protection by choosing to receive the Company's communication through email. Members holding shares in demat mode, who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses with their respective depository participants, and Members holding shares in physical mode are requested to update their email addresses with the Company's RTA, Skyline Financial Services Private Limited at admin.skylinerta.com to receive copies of Notice of the AGM along with the Annual

Members may note that the Notice of the AGM and the Annual Report 2022-2023 will also be made available on the Company's website at www.maxheights.com websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) www.evotingindia.com.

Report 2022-23 in electronic mode.

The Company is providing e-Voting Facility ("remote e-Voting") to all its members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of AGM. Additionally, Company is also providing the facility of e-Voting during the AGM Detailed procedure for joining the AGM and remote e-Voting is provided in the Notice of AGM. Members attending the AGM thought VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Act.

For MAXHEIGHTS INFRASTRUCTURE LIMITED

Place: New Delhi Kajal Goel Date: August 21, 2023 Company Secretary & Compliance Officer



has floated RFP for supplying, printing, personalization and dispatch of 1.5 crore emv chip cum magstripe rupay, visa & master dual interface contactless debit card (ncmc) in GeM portal. Interested parties may refer Bank's Website:

https://www.indianbank.in/tenders for details.

STATE BANK OF INDIA LHO, KOTI, Hyderabad-500001. Ph: 040-23466317 NOTICE INVITING APPLICATION FOR PRE-QUALIFICATION

OF ARCHITECTURTAL CONSULTANCY FIRM (ACF) (2nd CALL) State Bank of India invites applications for pre-qualification of Architectural Consultancy firm (ACF) for limited design competition for selection of Project Architect for the proposed Construction of Building of built-up area of 20,000 Sft for Branch, RASMECC, RBO, RACC and LDM Office at Mahabubnagar. For details and to download application, please log on to www.sbi.co.in . under "SBI In the News" in "Procurement News". Last date for submission is 14/09/2023 at **03:00 PM.** Corrigendum, if any, will be published only in Bank's website.

UTTAM Sugar

Uttam Sugar Mills Limited

[Corporate Identity Number (CIN): L99999UR1993PLC032518] Regd. Office: Village Libberheri, Tehsil Roorkee. District Haridwar, Uttarakhand - 247667 Tel.: 0120 - 4525000, Website: www.uttamsugar.in, e-mail id: investorrelation@uttamsugar.in

INFORMATION TO SHAREHOLDERS FOR 28TH ANNUAL GENERAL MEETING AGM to be held through VC/OAVM

Notice is hereby given that the 28" Annual General Meeting ("AGM") of the Shareholders of the Company will be held on Friday, the 22rd September, 2023 at 12:00 noon through Video Conferencing / Other Audio Visual Means (VC/OAVM) to transact the business(es) as set out in the Notice of AGM, which is being circulated for convening the AGM.

In view of the relaxation granted by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') vide its General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 and Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 ('MCA Circulars') and SEBI vide it's circular no SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/ HO/ CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 ("SEBI circulars (MCA Circulars and SEBI Circulars collectively referred as Circulars) has permitted the holding of the AGMs through VC/ OAVM facility and dispensed physical presence of the members at the meeting. In compliance with the provisions of the Companies Act. 2013 ('Act'), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing ons") and Circulars, the 28" AGM of the Company will be held through VC/OAVM As per aforesaid circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for the F.Y. 2022-23 will be sent to all the Shareholders whose e-mail ids are already registered with the Company/ Depository Participants. Shareholders may note that the Notice of AGM and Annual Report for the F.Y. 2022-23 will also be available on the Company's website i.e. www.uttamsugar.in and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com & National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited at www.evoting.nsdl.com, Shareholders can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Shareholders attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum as per section 103 of the Companies Act, 2013.

Date: 22" August, 2023

Place: Noida

The Company is providing remote e-voting facility to all its Shareholders to cast their votes on all resolutions as set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company is also providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting/ voting through e-voting system during the AGM is being provided in the Notice of the AGM.

Manner of registering/updating e-mail address In case Members holding shares in Physical Mode and who have not registered/updated their

email addresses with the Company/ Depository are requested to register/update their email addresses by writing to delhi@linkintime.co.in or to the company a investorrelation@uttamsugar.in along with copy of signed request letter mentioning the name, folio no, address of the member, Form - ISR 1, self attested copy of PAN Card and Self attested copy of Aadhar Card / Driving License/Voter ID/Passport etc. Member holding shares in Demat Mode are requested to register/update their email

addresses with their respective Depository Participants.

The Members may please note that Board of Directors have recommended a Final Dividend

at the rate of 25% fi.e., @ Rs.2.50 per Equity Sharel of Face Value of Rs.10/- (Rupees Ten Only) for the Financial Year ended March 31,2023, subject to the approval of the Shareholders at the 28° AGM. The Dividend, if declared, will be paid through Reserve Bank approved electronic mode to those Shareholders who have updated their bank account details with the Company's Registrar and Share Transfer Agent/ Depository Participants. In case members have not registered/updated their bank account details, please

register/update the details in your demat account, as per the process advised by your respective DP. For Further information/clarification on the above matter, Members can write to the

Company/RTA of the Company at their respective address/ e-mail. By Order of the Board of Directors of the Company

For Uttam Sugar Mills Limited

(RAJESH GARG) Company Secretary & Compliance Officer (Membership No. FCS-5841)

INDIA RADIATORS LIMITED

CIN: L27209TN1949PLC000963 Regd. Off. 88, Mount Road, Guindy, Chennai 600 032. Tel: 044-40432210 Email: cs@indiaradiators.com Website: www.indiaradiators.com

NOTICE OF SHARE HOLDERS REQUEST THEIR E-MAIL IDS TO RECEIVE THE ANNUAL REPORT AND AGM NOTICE

The Company hereby states that the 73rd Annual General Meeting (73rdAGM) will be held on Friday, 22nd September 2023 at 02.30 PM (IST) through video conferencing ("VC") or other audio visual means ("OAVM") in accordance with applicable provisions of Companies Act, 2013 read with General Circular No.10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015 read with the Circulars issued by the SEBI vide SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023.

As mandated in the aforesaid Circulars, the Annual Report for the year 2022-23 together with the Notice of the AGM will be sent only by electronic means to the shareholders who have registered their e-mail ids with the Registrar and Transfer Agent (RTA) or the Depository Participants as the case may be, unless a specific request has been made in writing for receiving the Physical copy. These will also be made available in the Website of the Company and the Stock Exchange viz., https://www.indiaradiators.com/ and www.bseindia.com.

Please note that Members who do not register their email addresses shall not be able to receive the Annual Report and the Notice of 73 AGM and the login details to participate in the meetings or vote through electronic means. Hence, the company requests all the members, who have not yet registered or updated their email addresses, to register the same by following the instructions given below:

Members holding shares in physical form are requested to register/update their email addresses by submitting Form ISR-1 (available in Company's Website https://www.indiaradiators.com/updation-of-pan-kyc-details/) to the RTA by sending an e-mail with the scanned copy of the form and other required documents to kyc@cameoindia.com. RTA had already sent necessary communications to the shareholders holding shares in physical form regarding the updation of KYC. In case of any queries as regards to the registration process of email address, the Members may send a mail to investor@cameoindia.com/cs@indiaradiators.com.

Alternatively, the aforesaid information may be sent by post or courier to the RTA viz. Cameo Corporate Services Limited, Unit : India Radiators Limited, Subramanian Building, 1, Club House Road, Chennai-600 002, Ph: 044-2846 0390 / 4002 0700.

Members holding shares in dematerialized form are requested to approach their Depository participants as per the process advised by them. Also it may be ensured that the option to receive the Annual Reports and other communications by e-mail has been duly exercised in respect of such holdings. Detailed instructions for casting of votes through remote e-voting prior to the meeting

and also for participating/ speaking/ voting at the meeting will be made available in the Notice of the AGM.

This public notice is being published well in advance to facilitate the Members to register or change their contact details and other particulars. Members may kindly avail the opportunity and provide the information at the earliest so that the Company is able to send the notices and other information promptly.

For India Radiators Limited

Place: Chennai Date: 21 August, 2023

E N Rangaswami DIN: 06463753 Whole-Time Director



SAGAR CEMENTS LIMITED CIN: L26942TG1981PLC002887

Regd.Office: Plot No.111, Road No.10, Jubilee Hills, Hyderabad-500 033 Tel.No.: +91-40-23351571 Fax No.: +91-40-23356573 e-mail: info@sagarcements.in Website: www.sagarcements.in

NOTICE

Notice is hereby given that in accordance with Section 108 and Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act"), the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022 and 11/2022 dated December 28, 2022 and other relevant circulars and notifications issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter collectively referred to as "the MCA Circulars"), the Company has sent a Postal Ballot Notice on August 21, 2023 through electronic mode to all those Members whose names appear in the Register of Members / List of Beneficial Owners as on Friday, August 18, 2023 ("Cut-Off Date") received from the Depositories and whose email addresses were registered and available with the Company or Registrar & Transfer Agent, M/s. KFin Technologies Limited or Depositories, seeking approval of the Members for passing of the resolutions through Postal Ballot as set out in the Postal Ballot Notice dated August 8, 2023 by way of remote e-voting only. The Postal Ballot Notice is available for download from the website of the

Company at https://sagarcements.in/wp-content/uploads/2020/09/Scl-Postal-Ballot-Notice-Final.pdf and on the websites of the stock exchanges NSE and BSE at https://www.nseindia.com and https://www.bseindia.com respectively. A copy of the said notice is also available on the website of M/s. KFin Technologies Limited at https://evoting.kfintech.com, the Registrar and Transfer Agent of the Company. All documents referred to in the Postal Ballot Notice shall be open for inspection

during normal business hours (9.00 a.m. to 5.30 p.m.) on all working days until the last date specified for casting votes through remote e-voting. Remote e-Voting: In terms of MCA Circulars read with the applicable provisions under the Act and

rules made thereunder, Members can cast their votes through remote e-voting only. The Company has availed electronic voting platform of M/s. KFin Technologies Limited, Company's Registrar and Share Transfer Agent ('RTA') for facilitating e-voting for this Postal Ballot. The Members whose names appear in the Register of Members/list of beneficial owners as on the Cut-Off date only would be considered for the purpose of e-voting. Members who acquire shares and become shareholders after the Cut-Off date, should treat this Postal Ballot Notice for information purposes only. Voting rights of a Member / beneficiary owners shall be reckoned in proportion to

their shares in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. Members may cast their votes during the period mentioned herein below:

Commencement of e-voting | Wednesday, the 23rd August, 2023 (9.00 a.m. IST) Conclusion of e-voting Thursday, the 21st September, 2023 (5.00 p.m. IST) e-voting shall be disabled and shall not be allowed beyond 5.00 p.m. (IST) on Thursday, the 21st September, 2023. The results of the e-voting shall be made

available not later than two working days of conclusion of the e-voting of the Postal Ballot. The resolutions as stated in the Postal Ballot Notice, if approved by the Members with requisite majority shall be deemed to have been passed on Thursday, the 21st September, 2023. The e-voting results declared along with the Scrutinizer's Report shall be hosted on the website of the Company i.e. https://sagarcements.in and on the website of KFin Technologies Limited i.e. https://evoting.kfintech.com. The results shall simultaneously be communicated to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the shares of the Company are listed. Detailed instructions and notes pertaining to process and manner of e-voting for

the Members of the Company are provided in the Postal Ballot Notice. Registration of e-mail addresses:

Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to follow the process mentioned below for registering their e-mail addresses to receive the Postal Ballot Notice electronically and to receive login-id and password for remote e-voting:

M	Members who hold shares in dematerialised mode		Members who hold shares in physical mode	
20	Visit the link https://ris.klintech.com/clientservices/mobilereg/ mobileemailreg.aspx	а	Visit the link https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilere /mobileemailreg.aspx	
b	Select the company name.	b	Select the company name.	
C	Shareholder to enter DP ID-CLIENT ID and PAN	C	Shareholder to enter physical Folio No. and PAI	
d.	Upload self attested copy of the PAN	đ	If PAN is not available in the records, shareholder to enter one of the Share Certificat No.	
è	Shareholder to enter the email id and mobile no.	е	Shareholder to enter the email id and mobile no	
f	System checks the authenticity of the client id and PAN and sends the different OTPs to mobile and email to validate.	f	System checks the authenticity of the Folio No. and PAN/ Certificate No. and sends the differen OTPs to mobile and email to validate.	
g	Shareholder to enter the OTPs received through SMS and email to complete the validation process (OTPs will be valid for 5 minutes only)	g	Shareholder to enter the OTPs received through SMS and email to complete the validation process (OTPs will be valid for 5 minutes only)	
h.	System confirms the email id for the limited purpose of serviced notice	h	System will send the notice and procedure for voting to the email given by the shareholder.	
I	System will send the notice and procedure for e-voting to the email given by the shareholder)	

The detailed procedure for obtaining user ID and password is also provided in the Postal Ballot Notice which is available on the Company's website and also on the website of KFin Technologies Limited. However, if a person is already registered with KFin Technologies Limited for e-voting, then his/her existing user ID and password can be used for casting the vote.

In case of any gueries or grievances pertaining to e-voting procedure, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members available at the downloads section of https://evoting.kfintech.com or may contact; Mr. K.Raj Kumar, Assistant Vice President, KFin Technologies Limited, Unit: Sagar Cements Limited, Selenium Building, Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032. Toll Free No.: 1800-3094-001. For and on behalf of Sagar Cements Limited

R.Soundararajan

Place: Hyderabad Date: 21" August, 2023

Membership No.F4182 "IMPORTANT"

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

NIYOGIN FINTECH LIMITED

CIN: L65910TN1988PLC131102 Registered Office: MIG 944, Ground Floor, TNHB Colony, 1st Main Road, Velachery, Chennai, Tamil Nadu- 600042

Corporate Office: Neelkanth Corporate IT Park, 311/312, Kirol Road, Vidyavihar (West), Mumbai - 400086. Tel No: +91 22 62514646 Email ID: niyogin.compliance@niyogin.in Website: www.niyogin.com

NOTICE OF 35TH ANNUAL GENERAL MEETING, **BOOK CLOSURE AND E-VOTING**

NOTICE is hereby given that the 35th Annual General Meeting ('AGM') of the members of Nivogin Fintech Limited (the 'Company') will be held on Thursday, September 14, 2023 at 4:00 p.m. (IST) through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the businesses as set out in the Notice of AGM. The Company has sent the Notice of the AGM along with the Integrated

Annual Report for the financial year 2022-23 on Monday, August 21 2023 through electronic mode to those members who have registered their email addresses with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent i.e. Link Intime India Pvt. Ltd. or Depository Participants, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') read with Circular No. 14/2020 dated 08 April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13 April, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs followed by General Circular No. 20/2020 dated 05 May, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular no. 10/2022 dated December 28, 2022 (collectively referred to as 'MCA Circulars'), and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (collectively referred to as 'SEBI Circulars') and all other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI from time to time (collectively referred to as 'relevant circulars').

The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Company situated at MIG 944, Ground Floor, TNHB Colony, 1st Main Road, Velachery, Chennai, Tamil Nadu - 600 042. Members participating the AGM through VC/ OAVM shall be reckoned

for the purpose of quorum as per Section 103 of the Companies Act, 2013 ('Act'). A member can request for a physical copy of the Annual Report by sending an email to the Company at nivogin.compliance@nivogin.in. The Notice of AGM and the Integrated Annual Report for the financial

year 2022-23 is also available on the website of the Company at

www.niyogin.com, National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com and BSE Limited at www.bseindia.com. In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI), members are provided with the

facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system (remote e-voting), facilitated by NSDL. Detailed procedure for remote e-voting before the AGM/ evoting during the AGM is provided in Note No. 23 of the Notice of Members holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut-off date of i.e. September 07, 2023 shall be entitled to cast their vote electronically through remote e-voting or voting at the

AGM in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. Members who have cast their vote through remote e-voting prior to the AGM can attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. However, electronic voting shall be made available during the AGM to members who have not cast their vote through remote e-voting. Once the vote on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The details of remote e-voting are as under: a. E-voting Event Number (EVEN)

b. Date of completion of dispatch Monday, August 21, 2023 of AGM Notice c. Cut-off date for determining the Friday, August 18, 2023 shareholders who shall receive the Annual Report d. Cut-off date for determining the Thursday, September eligibility of Members for voting 07, 2023 through remote e-voting and voting at the AGM e. Date and time of commencement of Monday, September 11, voting through electronic means 2023 at 9:00 a.m. IST Date and time of end of voting

Wednesday, September through electronic means 13, 2023 at 5:00 p.m. IST The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by NSDL upon expiry of the aforesaid period.

Members holding shares in physical form or who have not registered their email address and any shareholders, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of the notice and is holding shares as on the Cut-off date i.e. September 07, 2023, are requested to refer to the Notice of the AGM for the process/procedure to be followed for obtaining their User ID and password for attending the AGM and casting their votes through remote e-voting. In case of any queries relating to voting by electronic means please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for the Members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 48867000 and 022 - 24997000 or send a request to Mr. Sagar S. Gudhate at evoting@nsdl.co.in Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode

for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type Helpdesk details Individual Shareholders Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a holding securities in demat mode with NSDL request at evoting@nsdl.co.inor call at 022 - 48867000 and 022 - 24997000

Members facing any technical issue in login Individual Shareholders holding securities in can contact CDSL helpdesk by sending a demat mode with CDSL request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33 The Board of Directors have appointed Mr. Mitesh J. Shah (FCS 10070)

of M/s Mitesh J. Shah & Associates, Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process and voting at AGM in a fair and transparent manner. Further, Notice is hereby given pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 (1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 08, 2023 to Thursday, September 14, 2023 (both days inclusive) for the purpose of the 35th AGM.

For Nivogin Fintech Limited

Place: Mumbai Neha Agarwal Date: August 21, 2023 Company Secretary & Compliance Officer



financialexp.epap.in

Place: Mumbai Date : 22" August, 2023

7. The members who have cast their vote by e-voting prior to the meeting may

communicated to the Stock Exchanges.

For Sri Adhikari Brothers Television Network Limited (Company under Corporate Insolvency Resolution Process,

निवेश सम्मेलन में निवेश की संभावनाओं के दृष्टिगत सीएम ने सी.आई.आई के अधिकारियों से किया विचार-विमर्श

वीर अर्जुन संवाददाता देहरादुन,। मुख्यमंत्री पृष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नई दिल्ली में उत्तराखण्ड में आगामी दिसम्बर माह में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेश सम्मेलन में निवेश की संभावनाओं के दृष्टिगत परिसंघ उद्योग (सी.आई.आई) के उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष दीपक जैन, सी.आई.आई. के उपाध्यक्ष माधव सिंघानिया से विचार विमर्श किया। इस उच्च स्तरीय बैठक में सी.आई.आई. के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को उद्योग जगत के प्रमुखों की भागीदारी सुनिश्चित कर उत्तराखंड के विकास के लिए प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। इस आयोजन में सीआईआई ने निवेशकों और राज्य के बीच संबंधों को बवा देने में अपनी सहयोगी की बात कही जिससे राज्य के विकास और प्रगति के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने में मदद मिल सके। इसके अतिरिक्त, सीआईआई ने राज्य के साथ मिलकर काम करने,

पारिस्थितिक संतुलन और समग्र

विकास को प्राथमिकता देने के लिए



सी.आई.आई के अधिकारियों से विचार-विमर्श करते सीएम।

सतत विकास के लिए सीआईआई-आईटीसी उत्कृष्टता केंद्र के माध्यम से अपनी विशेषज्ञता की उपलब्धता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य ने हाल ही में राज्य के समग्र विकास स्निश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए 27 क्षेत्रीय नीतियां बनाई गई हैं। सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था में 41 प्रतिशत

योगदान देने वाले सेवा क्षेत्र के लिए एक समर्पित नीति प्रेषित करने की भी योजना बनाई जा रही है। सीआईआई और उत्तराखंड सरकार के मध्य विविध निवेश अवसरों की खोज सहयोगात्मक पहल इस बैठक के प्रमुख विषय थे, जिन्हें राज्य के विकास को गति देने और निवेश को बवा देने के लिए केंद्रित किया गया था। मुख्यमंत्री ने भारतीय

वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के अध्यक्ष सुभ्रकांत पांडा से भी निवेश से संबंधित विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि फिक्की के सहयोग से देश व विदेशों में शो आयोजित किये जायेंगे। उन्होंने फिक्की से उत्तराखण्ड में जमीनी सहयोग पर भी ध्यान देने को कहा। मख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। पर्यटन के क्षेत्र में राज्य के निवेश की असीम संभावनाएं है। राज्य में देश के साथ विदेशों से भी इस क्षेत्र में उद्यमी आए इसके प्रयास किये जा रहे है। योग और वेलनेस राज्य की पहचान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आकर्षक पर्यटन नीति तैयार की गई है जिसके तहत अनेक क्षेत्रों में सब्सिडी दी जा रही है। पर्यटन क्षेत्र राज्य की आर्थिकी का मजबूत आधार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से निवेश के लक्ष्य की पूर्ति हेत् सरकार प्रोएक्टिव एप्रोच के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करेगी की निवेशकों के हित,जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पर्यटन, कृषि,बागवानी, आयुष, योग,सर्विस सेक्टर और अन्य संभावित क्षेत्रों को और अधिक समृद्धशाली कैसे बनाया जाए इसका रोड मैप लेकर हम अधिक से अधिक निवेश कैसे सुनिश्चित करें इस पर काम कर रहे हैं। इन्हीं उद्देश्यों के साथ हमने उत्तराखंड में एक निवेश क्रांति लाने का संकल्प लिया है। इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य

वीर अर्जुन संवाददाता देहरादून, । आरटीआई एक्टिवस्ट विकेश नेगी ने चाय बागान की जमीन घोटाले के मामले की शिकायत पर्वतन निदेशालय को कर दी है।

उन्होंने कहा कि करोडों रुपये के इस घोटाले में निबंधन विभाग और अफसरों की भूमाफिया से सांठगांठ हैं। ऐसे में इस मामले की जांच पर्वतन निदेशालय करें। उन्होंने ईडी से भुमाफिया और इस मामले में संलिप्त अन्य लोगों के खिलाफ गैंगस्टर और सीलिंग एक्ट के सेक्शन 35 के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। पर्वतन निदेशालय के डायरेक्टर को दी गयी शिकायत में एडवाकेट विकेश नेगी ने कहा कि उन्होंने देहरादून के चाय बागान की जमीनों को खरीद-फरोख्त को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद

जिला प्रशासन ने मामले में जांच



एडवोकेट विकेश नेगी।

चाय बागान की जमीन घोटाले की ईडी से की शिकायत

शुरू की। इस मामले को लेकर 15 जुलाई 2023 को थाना कोतवाली में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। यह केस सहायक महानिरीक्षक निबंधन ने दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने अभी कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है लेकिन अब तक भमाफिया और उससे सांठगांठ करने वाले

लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। एडवोकेट विकेश नेगी के मुताबिक यह जमीन घोटाला करोडों का है। इस घोटाले के तार कई राज्यों में फैले हुए हैं। ऐसे में इस मामले की जांच ईडी करे और मामले में संलिप्त लोगों पर गैंगस्टर और सीलिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए।

हरिद्वार जनपद के 24991 आपदा प्रभावितों को मिले 13 करोड़ 32 लाख 61 हजार: महाराज

वीर हरिद्वार, अर्जुन संवाददाता। दैवीय आपदा से घरों को हुए नुकसान, परिवारों में मानव या पशु क्षति, भूमि कटाव और किसानों की फसलों को हए नुकसान की क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए सरकार द्वारा जनपद के 24991 प्रभावितों को अब तक 13 करोड. 32 लाख 61 हजार की धनराशि की सहायता दी जा चुकी है। उक्त जानकारी देते हुए जनपद के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण, संस्कृति मंत्री एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि 19 जुलाई 2023 को जब उन्होंने जनपद के आपदा प्रभावित क्षेत्रों मोहम्मदपुरबुजुर्ग, लंढौरा, मुंडनाना, साउथ सीवर लाइन, खानपुर, मोहनपुर, रूडक़ी स्थित



गणेशपुर, रेलवे स्टेशन, पनियाला भगवानपुर बाजार, जौनपुर से मोहम्मदपुर बुजुर्ग तटबंध, एवं बिरला टायर फैक्ट्री का भ्रमण किया किया तो हालातों का जायजा लेने के पश्चात प्रभावितों को फौर मदद देने के साथ साथ मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पानी में डूबे क्षेत्रों को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के साथ-साथ

क्षेत्र करने, लोगों के तीन माह के बिजली, पानी के बिल माफ करने और बैंकों से ऋण वसूली पर फिलहाल रोक लगाने का अनुरोध किया था। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने इन सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए जनता को प्रभावित क्षेत्रों को आपदाग्रस्त

तीन माह के पानी, बिजली के बिल माफ करने और बैंकों से तीन माह तक ऋण वसूली पर रोक लगाने

जनपद के प्रभारी मंत्री श्री महाराज ने कहा कि जनपद के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को प्रदेश सरकार लगातार मदद देने का प्रयास कर रही है। जनपद के आपदा प्रभावित कुल 6336 लाभार्थियों को अभी तक 01 करोड. 37 लाख 9 हजार की धनराशि की सहायता दी जा चुकी है जबिक 761 लाभार्थियों, जिनके घरों को आपद से नुकसान पहुंचा है उन्हें गृह अनुदान के अन्तर्गत भी तक 44 लाख 41 हजार 300 रुपये की फौरी सहायता दी जा चुकी है। श्री महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जिन लोगों के परिवारों में मानव या पशु क्षति हुई

वांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार ने किया व्याख्यान प्रदर्शन आयोजित

। प्रसिद्ध बांसुरीवादक पंडित रोनू मजूमदार ने स्पिक मैके के तत्वावधान में एक

वीर अर्जुन संवाददाता

व्याख्यान प्रदर्शन का आयोजन किया। कार्यक्रम यूनिसन वर्ल्ड स्कूल और दून बिजनेस स्कूल में आयोजित हुआ, जहां पंडित रोन् मजुमदार ने अपनी संगीत यात्रा और विशेषज्ञता छात्रों के साथ साझा की। उनके साथ तबले पर मिथिलेश झा ने संगत की। पंडित रोन् मजूमदार वाराणसी में पले-बे जहां उन्होंने पहले अपने पिता डॉ. भानु मजूमदार और बाद में पंडित विजय राघव राव से बांसुरी सीखी। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और अमेरिकी बैंजो प्लेयर बेला फ्लेक के साथ एल्बम तबुला रासा में उनके काम के लिए ग्रैमी नॉमिनेशन शामिल हैं। उन्होंने यूरोप, अमेरिका, कनाडा, जापान, सिंगाप्र, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्युजीलैंड और मिडिल ईस्ट में बडे. पैमाने पर संगीत दौरे किये हैं। उन्होंने दुनिया के कुछ सबसे प्रतिष्ठित स्थानों जैसे मॉस्को में द क्रेमलिन, ब्रुसेल्स में द पैलेस ऑफ बीक्स आर्ट्स, इत्यादि में कई बार प्रदर्शन किया है। उनका नाम प्रसिद्ध पंडित रविशंकर, बीटल्स के प्रमुख गिटारवादक जॉर्ज हैरिसन, जाने-माने गिटारवादक राई कूडर और कई अन्य लोगों सहित अंतरराष्ट्रीय उस्तादों के साथ जोडा गया है। इसके साथ साथ उन्हें न्यूजीलैंड के ऑकलैंड स्थित टाउन हॉल में संगीत कार्यक्रम देने वाले पहले बांसुरीवादक होने का सम्मान भी

देहराँद्रेन, वीर अर्जुन संवाददाता। राजीव भवन स्थित प्रदेष कांग्रेस ार्यालय में कांग्रेस पूर्व सैनिक अर्ध सैनिक विभाग की आवष्यव . वैइक कैप्टन बलवीर सिंह रावत के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमे पार्टी हाईकमान पूर्व सैनिक विभाग द्वारा जारी आदेष निर्देषों पर विस्तार

कांग्रेस पूर्व सैनिक अर्धसैनिक विभाग एकता और

मजबुती के लिए नेक निष्ठा से कार्य करता रहेगा

शुद्धिपत्र

एसटीबीए की निविदाएं मुरादाबाद मंडल द्वारा 24.07.2023 को आमंत्रित की जानी र्थ और 24.08.23 को खोली जानी थीं। रेलवे बोर्ड के 2023 दिनांक 18.08.2023 के एक नए वाणिज्यिक परिपत्र संख्या – 16 को आइटम नंबर 1.1 के माध्यम से प्राप्त हुआ जिसमे उल्लेख किया गया है कि "यदि कोई निविदाकर्ता/आवेदक स्लैब -3 में उप-शून्य कमीशन (0%) उद्धृत करता है, उसका आवेदन सरसरी तौर पर खारिज कर दिया

इसलिए, निविदा की तिथि बढ़ा दी गई है और इसे 04.09.2023 को 15.00 बजे खोल

उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड [Corporate Identity Number (CIN): L9999UR1993PLC032518] पंजी. कार्यालयः गांव लिब्बरहेड़ी, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार

रु<mark>जीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित करना</mark> सुतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना, जो कि एजीएम के आयोजन के लिए नेजी जा रही है, में निर्घारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए कम्पनी के शेयरघारकों की 28वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2023 को दोप. 12.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन् ऑडियो वीडियो माध्यमों (वीसी/ओएवीएम) के द्वारा आयोजित की जाएगी।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, परिपत्र सं / 2022 दिनांक 5 मई, 2022 और परिपत्र सं. 10 / 2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 (''एमसीग परिपत्र') और सेबी द्वारा अपने परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर, पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/ सीआईआर/पी/ 'सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 (" सेबी परिपत्र") के माध्यम से आम स्थल ादस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन व ामित दी है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधानों तथा सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एव कटीकरण आवश्यकताए) विनियम, 2015 ('सूचीयन विनियम') एवं परिपत्रों के अनुपालन हम्पनी की 28वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

ारोक्त कथित परिपत्रों के अनुसार वित्त वर्ष 2022—23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीए सचना उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाएगी जिनके ई-मेल आईडी पहले से ही कम्पर्न ा रूपना पन तना रायरबारका को नेजा जाएगा जिनक इन्मल आइडा पहले से ही कैम्पर हिपॉजिटरी प्रतिमाग्यों के पास पंजीकृत हैं। शेयरधारकगण कृपया नोट करें कि एजीएम वे मूचना और वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.uttamsugar.i न्टॉक एक्सचेजों की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और नेशनल स्टॉव नचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटर लिमिटेड की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी। शेयरधारक केवल वीसी / ओएबीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल एवं भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने वं नेर्देश एजीएम की सूचना में दिये गये हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने

वाले शेयरधारकों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार कोरम के प्रयोज हेतु की जाएगी। वोटिंग की प्रक्रिया

तिथिः 22 अगस्त, 2023

कम्पनी अपने सभी शेयरधारकों को एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट रेमोट ई–वोटिंग सुविधा के माध्यम से देने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा कम्पनी एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम ('ई–वोटिंग') के माध्यम से अपना वोट देने की भी गुविधा उपलब्ध करा रही है। रिमोट ई—वोटिंग∕ई—वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने र्क स्तत प्रक्रिया एतीएम की सचना में दी गई है।

ई—मेल पता पंजीकरण/अपर्डेट कराने की प्रक्रिया

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपना ई—मेल पता कंपनी, डेपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं कराया है उनसे अनुरोध है कि कृपया विधिवत हस्ताक्षरि अनुरोध पत्र के साथ नाम, फोलियो नं., सदस्य का पता, फॉर्म आईएसआर—1, पैन कार्ड र्क स्व—सत्यापित प्रति ओर आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी/पासपोर्ट आदि की स्व—सत्यापित प्रति को लिखित में ई—मेल delhi@linkintime.co.in या कंपनी को ई—मेल

investorrelation@uttamsugar.in पर भेजकर इसे पंजीकृत/अपडेट कराएं। डिमैट प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पार

सदस्यगण कृपया नोट करें कि निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंकित मुल्य रु. 10 /— (दस रुपए) के 25 प्रतिशत (अर्थात् रु. 2.50 प्रति इक्विटी शेयर) की द पर अंतिम लामांश की सिफारिश की है जो 28वीं एजीएम में अनुमोदन के अधीन है। लामांश प्रदि घोषित हो जाता है तो उन शेयरधारकों को रिजर्व बैंक अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम र ातान किया जाएगा जिन्न्होंने अपना बैंक खाता विवरण कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफ , जेंट / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपडेट कराया है।

जन सदस्यों ने अपना बैंक खाता विवरण पंजीकृत/अपडेट नहीं कराया है, उनसे अनुरोघ है वि । अपने संबंधित डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना डिमेट खाता विवरण पंजीकृत/ भपडेट कराएं। उपरोक्त विषय पर किसी भी जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए सदस्य

oंपनी / कंपनी के आरटीए को उनके संबंधित पते / ई—मेल पर लिख सकते हैं। कम्पनी के निदेशक मंडल के आदेशानुसार हस्ता. /

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी (सदस्यता सं एफसीएस-5841

वीर 🐒 अन्

दिहरादुन में समाचार पत्र प्राप्त करने एवं विज्ञापनों के लिए संपर्क करें। मो.7**895**189235

वीर अर्जुन की प्रतियां प्राप्त करने के लिए संपर्क करें:-

वसीम अहमद दहरादून:-

मो.-9758325677

चन्दर न्यूज एजेंसी रुडकी:-प्रो.- श्री चन्द्रभान,

दुकान नं. 11, पुराना रेलवे रोड, मकतुलपुरी रुड़की

मो.- 9927069871

आत्रे न्यूज एजेंसी हरिद्वार:-

प्रो.- श्री ॲिनल कुमार शर्मा ,जटवाड़ा पुल, हरिद्वार मो.- 9837177797

ऋषिकेश:-आजाद न्यूज एजेंसी प्रो.- श्री संजीव गुप्ता हरिद्वार रोड, ऋषिकेश

मो.- 9837229222

उत्तरकाशी में बस हादसे के मामले में मुख्यमंत्री ने तेजी से राहत-बचाव कार्य संचलित करने के दिए निर्देश

वीर अर्जुन संवाददाता ★मुख्यमंत्री ने जिले को प्रभारी मंत्री एवं अपर मुख्य सचिव को घटना की मॉनिटरिंग के दिये निर्देश

देहरादून,। उत्तरकाशी के तहसील भटवाडी अंतर्गत गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास यात्रियों की बस खाई में गिरने के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय प्रशासन को तेजी से राहत-बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल एवं अपर मुख्य सचिव से भी फोन पर वार्ता कर घटनास्थल पर चल रहे राहत बचाव

एनडी आरएफ, मेडिकल टीमों को मौके पर भेजा

कार्यों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा की एसडी आरएफ, गया है। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों के लिए आवश्यकता पडऩे पर देहरादुन में हेलीकॉप्टर को तैयार रहने के लिए कहा है। गंगनानी में हुई इस घटना में कुछ लोगों के हताहत होने की सूचना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों मे स्थान प्रदान करें और शोकाकुल परिजनों को यह कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें। उन्होंने सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की

समेत परिवार के तीन लोग जिंदा दफन वीर अर्जुन संवाददाता नई टिहरी, । चंबा में सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया। चंबा थाने के पास

टैक्सी स्टैंड की पार्किंग में भूस्खलन हो गया। पहाडी से गिरे सैकडों टन मलबे की चपेट में दो वाहन आ गए। हादसे में चार महीने के मासूम समेत तीन लोगों की मौत हो गई। मलबे में दबे ग्राम जसपुर कंडीसौड. निवासी पूनम खंडूरी (30) उनके चार माह के बेटे और बहन सरस्वती देवी (35) के शवों को पंचनामे के लिए जिला अस्पताल बोराडी ले जाया गया है। वहीं, मलबे में दो कार, एक स्कुटी और बाइक भी दब गई। मलबे में दबकर वहां पर बना सार्वजनिक शौचालय भी जमींदोज हो गया। घाटना दोपहर करीब एक बजे की है। भूस्खलन

गई। वहां आस-पास खडे लोगों ने भागकर और बच्चे को लेकर सुसराल डारगी गांव जान बचाई। पहाडी़ से ट्रटकर सैकडों टन मलबा भरभरा कर सडक़ पर गिर गया। उसे साफ करने के लिए छह जेसीबी मशीन, डोजर लगाए गए हैं। भूस्खलन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से थाने के समीप के चार घरों को खाली कराकर दुसरी जगह शिफ्ट किया है। टैक्सी स्टैंड और सड़क़ से मलबे को पूरी तरह हटाने में और वक्त लग सकता है। भस्खलन से बडी मात्रा में मलबा, बोल्डर टैक्सी स्टैंड और नई टिहरी मार्ग, थाने की एप्रोच रोड और नीचे स्थित ऋषिकेश-गंगोत्री हाईवे पर जा गिरा। अक्सर लोग थाने के समीप टैक्सी स्टैंड में अपने वाहन भी पार्क कर देते हैं। बताया जा रहा है कि दोपहर को कंडीसौड जसपुर गांव होते ही टैक्सी स्टैंड में अफरा-तरफी मच निवासी सुमन खंडूरी कार बुक कर पत्नी

पहाड़ी से मौत बनकर गिरा मलबा, चार महीने के मासूम

जा रहे थे। चंबा पहुंचने पर उन्होंने ड्राइवर को कार टैक्सी स्टैंड में खड़ी करने के लिए वहां पर उनकी बहन सरस्वती मिलने

आई थी। सुमन और ड्राइवर कार खडी़ कर सामान खरीदने के लिए बाजार चले गए। उनकी पत्नी पुनम, बेटा और बहन सरस्वती देवी कार के अंदर बैठी हुई थी। इसी दौरान हादसा हो गया। सचना पर डीएम मयर दीक्षित, एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर, सीडीओ मनीष कुमार घटनास्थल पहुंचे। एसडीआरएफ, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमों ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद शाम करीब सो चार बजे रेस्क्यू टीम ने स्विफ्ट कार के अंदर दबे तीनों के शव बरामद किए।

लहाख घटना में शहीद हुए जवानों के परिजनों को पत्र के माध्यम से भेजा जाएगा शोकपत्र: गणेश जोशी सीपीय की नो पार्किंग में खडे

देहरादुन, । सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक कल्याण निदेशालय में लद्दाख में हए दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शहीद हुए भारतीय सेना के 09 बहादुर जवानों की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सभा में घटना में शहीद हुए जवानों के लिए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वह जवान देश की रक्षा के लिए ड्यूटी पर जा रहे थे। ड्यूटी के दौरान वे



बैठक करते सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी।

देशवासी का कर्तव्य है। मंत्री ने कहा एक शोक संदेश सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से शहीदों के परिजनों भेजा जाएगा। उन्होंने कहा शहीद हुए जवानों के परिजनों के साथ पूरी भारत सरकार उनके साथ खडी़ है। मंत्री ने शहीदों के परिजनों को इस वियोग को सहने

की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना भी की। इस अवसर पर उन्होंने दुर्घटना में घायल हुए जवान की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ भी कामना भी की। गौरतलब है कि बीते शनिवार को लदाख के लेह जिले के क्यारी शहर से 7 किमी दूर सेना का एक ट्रक खाई में गिर गया था।भारतीय

रहे थे अचानक वाहन के खाई में गिरने से यह हादसा हुआ। वीरगति को प्राप्त करने वालों में एक जेसीओ (जूनियर कमीशंड ऑफिसर) और बाकी 8 जवान हैं। वाहन में सेना के 10 जवान सवार थे। इस सडक़ दुर्घटना में भारतीय सेना के 9 जवान वीरगति को प्राप्त हुए तथा एक अन्य जवान घायल है। जिसका उपचार चल रहा है। इस अवसर पर मेजर जनरल सम्मी ब्रिगेडियर जेएनएस बिष्ट, प्रबन्ध निदेशक उपनल, कर्नल एमएस कर्नल जेएस चंद उपस्थित रहे।

सेना के जवान सैनिक कारू गैरीसन

से लेह के पास क्यारी की ओर बढ

वीर अर्जुन संवाददाता रुद्रप्र,। सडक किनारे या नो पार्किंग में खडे वाहनों के खिलाफ सीपीय ने कार्रवाई करते हुए कई वाहनों को सीज किया। इसके

वाहनों के खिलाफ कार्रवाई

साथ ही सीपीयू ने चालकों को चेतावनी दी कि दोबारा नो पार्किंग में वाहन खडे मिले तो बख्शा नहीं

जानकारी के मुताबिक सडक किनारे खडे. वाहनों से सडक हादसे हो रहे हैं। हादसों को रोकने के लिए सडक किनारे या नो पार्किंग में खडे, वाहनों के खिलाफ सीपीय ने कार्रवाई शुरू जोधा, ले. कर्नल बीएस रावत, ले. की। यह कार्रवाई काशीपुर रोड पर शुरू हुई। सीपीयू दरोगा

सतपाल पटवाल के नेतृत्व में सीपीय दरोगा दिनेश चन्द्र,एसआई मुन्ना,रवि कुमार, गणेश,पूरन, नारायण काशीपुर रोड पहुंचे। सीपीय ने नो पार्किंग में खडे.बडे. वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। सीपीय दरोगा पटवाल के मुताबिक नो पार्किंग में खडे. आधा दर्जन वाहनों को सीज किया और कई वाहनों को चालान की कार्रवाई की। इसके साथ ही सडक किनारे खडे. वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। बता दें कि सडक किनारे वाहन खडे. होने पर दुघर्टनाएं हो रही है। दुघर्टनाओं को रोकने को सीपीयू ने उच्चाधिकारियों के आदेश पर कार्रवाई शुरू की।

यूथ रंडाास एवं विश्वनाथ कल्याण समिति के रक्तदान शिविर में 65 लोगों ने किया रक्तदान

वीर अर्जुन संवाददाता

देहरादुन, । जिला यथ रेडांगस कमेटी तथा विश्वनाथ एन्क्लेव जन कल्याण समिति के संयुक्त तत्वावधान में कृडिय़ाल भवन, विश्वनाथ एन्क्लेव, सहस्त्रधारा रोड देहरादून में श्री महंत इंदिरेश हास्पिटल ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर, निशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं नि:शुल्क वायरलेस हियरिंग एड, बैसाखी, स्टिक, चश्मा आदि वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मेयर सुनील उनियाल गामा द्वारा यूथ रेडांस कमेटी के चेयरमैन रक्तदाता शिरोमणि अनिल वर्मा को 150 से अधिक बार रक्तदान करने हेत् रक्तदाता परमवीर सेवा अवॉर्ड प्रदान करके सम्मानित किया गया। इस विशेष रक्तदान शिविर में 65

लगभग 300 लोगों की सीनियर फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ तथा दंत रोग विशेषज्ञ द्वारा जांच की गई। साथ ही अनेक लोगों को नि:शुल्क वायरलेस हियरिंग एड, चश्मे, बैसाखी तथा छडी प्रदान की गई। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि मेयर सुनील उनियाल गामा, विश्वनाथ एन्क्लेव जन कल्याण समिति के अध्यक्ष सुबोध जैन, महासचिव शशिकांत सिंघल, कोषाध्यक्ष अमित कल्याण, जिला रेडांस के चेयरमैन डॉ. एम एस अंसारी, सचिव कल्पना बिष्ट, यूथ रेडांगस कमेटी के चेयरमैन अनिल वर्मा, मैनेजिंग कमेटी के सदस्य विकास कुमार, रेडागस सदस्या मेजर प्रेमलता वर्मा, कार्यालय अधिकारियों आशीष कुमार चनालिया तथा रूपाली शर्मा

यवा महिलाओं व पुरुषों ने रक्तदान किया । ने किया। मुख्य अतिथि मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि रक्तदान करना मानवता की निरूस्वार्थ सेवा की भावना है। एक व्यक्ति द्वारा किए गए रक्तदान से न केवल तीन व्यक्तियों का जीवन बचता है, बल्कि उनसे जुडे परिवारों व संबंधियों की खुशियां लौट आती हैं।

जिला रेडांगस सचिव कल्पना बिष्ट ने कहा कि भारत में रक्तदान करने योग्य युवा महिलाओं में रक्तदाता महिलाओं की संख्या पांच प्रतिशत है जबिक रक्त की आवश्यकता महिलाओं को प्रसव आदि के दौरान तथा अन्य सर्जरी के लिए बहुत ज्यादा पडती है। अत: स्वस्थ महिलाओं को कम से कम सारे में दो बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए। 'रक्तदाता शिरोमणि अनिल वर्मा ने भारत को विश्व का सर्वाधिक युवाओं की जनसंख्या में वृद्धि होते वाला देश होते हैं भी रक्तदान के क्षेत्र में अभी भी मात्र 5-6 प्रतिशत स्वैच्छिक रक्तदाता होने पर इसे शर्मनाक व चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि इस वैज्ञानिक युग में

भी अनेक अंधविश्वास रक्तदान को लेकर समाज में व्याप्त हैं। उन्होंने अब तक 150 से अधिक बार रक्तदान करने के स्वयं के साथ अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि रक्तदान करने से शारीरिक कमजोरी आने अथवा अन्य कोई बीमारी लगने की बातें सरासर निराधार हैं। सच्चाई तो यह है कि नियमित रक्तदान करने वाले व्यक्ति हार्ट अटैक, कैंसर आदि अनेक गंभीर बीमारियों से काफी हद तक बचे रहते हैं। रक्तदान किये हुए रक्त की आपूर्ति तो शरीर में 24-48 घंटों में ही अपने आप पूरी हो जाती है। साथ ही बोन मैरो एक्टिवेट होने से नया रक्त बनने के कारण शरीर में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। अनिल वर्मा ने विश्वनाथ एन्क्लेव जन कल्याण समिति द्वारा उन्हें रक्तदाता परमवीर सेवा अवार्ड से तथा समस्त रेडांस सदस्यों को सम्मानित किए जाने पर संस्था के अध्यक्ष सुबोध जैन, महासचिव शशिकांत सिंघल, कोषाध्यक्ष कल्याण सहित समस्त पदाधिकारियों व सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही जिला रेडांस सोसायटी की तरफ से मुख्य अतिथि मेयर सुनील उनियाल गामा, विश्वनाथ समिति के पदाधिकारियों तथा समस्त रक्तदाताओं को प्रतीक चिन्ह व प्रमाण पत्र भेंटकर सम्मानित किया।